

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 579/प्रिंटिंग/2015/कम्यूनिकेशन

तारीख 3 अगस्त, 2016

सेवा में,

1	मैसर्स सोना प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड एफ 86/1, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020 ई-मेल : print@sona.in	2	मैसर्स आई जी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड 104, डी एस आई डी सी कॉम्पलेक्स ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली - 110020 ई-मेल : igprinter@rediffmail.com
3	मैसर्स होलीफेथ इंटरनेशनल (प्राइवेट) लिमिटेड, गुलाब भवन, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-02 ई-मेल : praveen.singh@mbdgroup.com	4	मैसर्स जनरल स्ट्रीट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, सी-3/317, तीसरा तल, प्लॉट सं. 72, मिलन विहार, इंद्रप्रस्था एक्सटेंशन, दिल्ली- 92 ई-मेल : generalstreetm@gmail.com
5	मैसर्स रॉयल प्रेस, 1799, दूसरा तल, परसादी गली, कोटला मुबारकपुर, डी-57 के सामने, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली - 3 ई-मेल : royalpress2014@gmail.com	6	मैसर्स शाक्यम इंडिया इंटरप्राइजेज, प्लॉट नं. 170, भू-तल, पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली ई-मेल : rohitm@shakyam.com

विषय :- "राष्ट्रीय दस्तावेज (2009-2014)" नामक हिंदी पुस्तक की 500 प्रतियों के मुद्रण के संबंध में
महोदय/महोदया,

"राष्ट्रीय दस्तावेज (2009-2014)" नामक हिंदी पुस्तक की 500 प्रतियों के मुद्रण के लिए, आयोग के पैनल में शामिल प्रिंटर से सीलबंद निविदाएं (अनुबंध 'क' के अनुसार) आमंत्रित की जाती हैं। कार्य का विनिर्देशन निम्नलिखित है :-

प्रतियों की संख्या :- 500
पृष्ठों की संख्या :- 226 पृष्ठ (आवरण पृष्ठ सहित)
आकार :- 7.02" × 9.93"
गुणवत्ता
(आंतरिक पृष्ठ) :- 80 जी एस एम आयातित मेट
(आवरण पृष्ठ) :- 200 जी एस एम आयातित मेट
लैमिनेशन :- आवरण पर मेट लैमिनेशन
बाइंडिंग :- पूर्ण एवं सेक्शन सिलाई
प्रिंटिंग
(आंतरिक पृष्ठ) :- चार रंग

(आवरण पृष्ठ) :- चार रंग

**आवरण डिजाइन और
आंतरिक पृष्ठ ले आउट
एवं डिजाइन**

:- एजेंसी को मुद्रित किए जाने के लिए तैयार प्रति प्रदान की जाएगी।

2. उपर्युक्त विनिर्देशनों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, भुगतान अनुपात आधार पर किया जाएगा। इच्छुक फर्म सीलबंद निविदा को अधोहस्ताक्षरी को संबोधित करके तारीख **12 अगस्त, 2016 (शुक्रवार)** तक अपराह्न **1.00** बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। सीलबंद निविदाओं को तारीख **12 अगस्त, 2016** को अपराह्न **2.45** बजे कमरा सं. **308** में खोला जाएगा। आवश्यक निबंधन एवं शर्तें इसके साथ संलग्न हैं। संलग्न निबंधनों एवं शर्तों को पूरा नहीं करने वाली निविदाओं को सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जाएगा। **कोट की गई दरों में सभी कर सम्मिलित होने चाहिए।**

ह/-

(पवन दिवान)

अनुभाग अधिकारी

दूरभाष : **011-23052153**

निबंधन एवं शर्ते

1. विनिर्देशनों के अनुरूप कागज का नमूना निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
2. कार्य आबंटन के बाद, फर्म को सर्वप्रथम अनुमोदन के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि यह पाया जाता है कि कार्य अपेक्षित विनिर्देशों के अनुसार नहीं किया जा रहा है और या यदि निबंधनों एवं शर्तों को पूरा नहीं किया गया है तो आयोग को सौंपे गए कार्य को रद्द करने और फर्म पर शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
3. आयोग, फर्म को कोई अग्रिम भुगतान नहीं करेगा। फर्म को संपूर्ण कार्य अपनी लागत से करना होगा और भुगतान कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा करने तथा इस संबंध में बिल को प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाएगा।
4. कार्य पूरा करने के लिए समय, प्रमाण के अनुमोदन की तारीख से ठीक 5 दिवस है।
5. आयोग आदेश को रद्द कर सकता है, यदि अपेक्षित मदों का आपूर्ति समय पर नहीं की जाती है या आयोग द्वारा परिकल्पित विनिर्देशनों को पूरा किया जाता है।
6. आयोग को किसी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा। आयोग कार्य आदेश देने से पूर्व निबंधनों एवं शर्तों को परिवर्तित भी कर सकता है।

ह/-

(पवन दिवान)

अनुभाग अधिकारी

वित्तीय बोली

निविदा करने वाली कंपनी/फर्म/एजेंसी का नाम

2. बोली लगाने वाले को आयोग द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों/सामग्री के संकलन, डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग, प्रूफरीडिंग, फोटो एडिशन, मुद्रण आदि सहित सभी लागतों को सम्मिलित करना चाहिए।

उल्लिखित कार्य के लिए कुल मूल्य : रु.
(सभी करों सहित) (शब्दों में) (रुपए))

3. उपर्युक्त विनिर्देशनों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, भुगतान अनुपात आधार पर किया जाएगा।

4. मैं/हम निविदा नोटिस के लिए आपके पत्र के सभी निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करता हूं/करते हैं।

हस्ताक्षर :

नाम :

मोबाइल नं. :